



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2007/माघ 13, 1928

No. 96]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007/MAGHA 13, 1928

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2007

का.आ. 102(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) और खण्ड 3ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एवियन एंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा सभी देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करती है, नामतः :—

- (i) कोप्टिव पक्षियों सहित घरेलू तथा जंगली पक्षी (कुक्कुट को छोड़कर);
- (ii) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों से अप्रसंस्करित माँस एवं माँस उत्पाद (कुक्कुट को छोड़कर);
- (iii) घरेलू एवं जंगली पक्षियों का वीर्य ।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) तथा खण्ड 3ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा एवियन एंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) सूचित करने वाले देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन एवं पशुधन उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाती है, नामतः :—

- (i) जीवित कुक्कुट ;
- (ii) एक दिन के चूजे, बत्तख, टर्की और अन्य नवजात चूजा प्रजातियां ;
- (iii) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का माँस एवं माँस उत्पाद ;
- (iv) हैचिंग अण्डे ;
- (v) अण्डा तथा अण्डा उत्पाद (विशेषकर पैथोजेन मुक्त अण्डों को छोड़कर) ;

(vi) पंख ;

(vii) जीवित सूअर तथा सूअर माँस उत्पाद ;

(viii) पैथोलोजिक सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद ;

(ix) पशु खाद्य या कृषि या औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से (पक्षियों से) पशु आधारित उत्पाद।

2. यह प्रतिबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि तक या ऐसे समय में संशोधन अथवा वापसी तक जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

[फा. सं. 109-16/2004-ट्रेड]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2007

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits, with effect from date of publication of this notification, the import into India from all countries, in view of Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—

- (i) domestic and wild birds including the captive birds (excluding poultry);
- (ii) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry);
- (iii) semen of domestic and wild birds.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the said Act, the Central Government hereby prohibits also the import into India from the countries reporting Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—

- (i) Live poultry;
- (ii) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;
- (iii) meat and meat products from Avian species including wild birds;
- (iv) hatching eggs;
- (v) eggs and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);
- (vi) feathers;
- (vii) live pig and pig meat products;
- (viii) pathological material and biological products from birds;
- (ix) Product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use.

2. The prohibition shall be in force for a period of six months from the date of publication of this notification or till such time it is modified or withdrawn, whichever is earlier.

[F. No. 109-16/2004-Trade]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.